

# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल—registrarsnpv@gmail.com; वेबसाईट—<https://snpv.ac.in>

क्रमांक 391/परीक्षा—गोपनीय/पारिश्रमिक/2021

रायगढ़ दिनांक 09/07/2021

## अधिसूचना

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के विभाजन के फलस्वरूप हुई है एवं इस विश्वविद्यालय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में लागू परिनियम, विनियम, अध्यादेश एवं नियम ही (जब तक कोई संशोधन न हो) लागू है। अतः परीक्षा एवं गोपनीय कार्य के पश्चात देय पारिश्रमिक हेतु अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के अधिसूचना क्रमांक 0091/परीक्षा—गोपनीय/2019, दिनांक 12/02/2019 के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक दर इस विश्वविद्यालय के लिए भी प्रभावी की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार



कै. कै. चन्द्राकर  
कुलसचिव


क्रमांक 392/परीक्षा—गोपनीय /पारिश्रमिक/2021

रायगढ़ दिनांक 09/07/2021

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
2. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ ।
3. सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ ।
5. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, बिलासपुर के सूचनार्थ ।
6. प्राचार्य/प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ ।
7. वित्ताधिकारी/उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)/सहायक कुलसचिव (वित्त/प्रशासन/भंडार), शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ ।
8. संबंधित अधिकारी को वेब साईट में अपलोड करने हेतु ।

उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)

  
09.07.2021



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)  
ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)  
website: www.bilaspuruniversity.ac.in


क्रमांक/0091/ परीक्षा-गोपनीय/2019

दिनांक 12/02/2019

—:अधिसूचना:—

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 26वीं बैठक दिनांक 13.09.2018 में अध्यादेश क्रमांक-5 में परीक्षा कार्य संबंधी पारिश्रमिक में किये गये संशोधन के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा जारी अधिसूचना को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.02.2019 में अंगीकृत करते हुए संशोधित पारिश्रमिक (संलग्न परिशिष्ट के पृष्ठ 1 से 5 तक) को सत्र 2018-19 की सेमेस्टर एवं मुख्य सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं से मान्य किया जाता है।


आदेशानुसार

  
कुलसचिव

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
दिनांक 12/02/2019

पृ. क्रमांक/0092/ परीक्षा-गोपनीय/2019  
प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. माननीय कुलपति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
4. आयुक्त, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
5. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, बिलासपुर के सादर सूचनार्थ।
6. परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
7. वित्ताधिकारी/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/अकादमी/वित्त/प्रशासन/भंडार) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
8. प्राचार्य/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
9. कक्ष अधीक्षक/प्रभारी (परीक्षा/अकादमी/वित्त/प्रशासन/भंडार), अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
10. विश्वविद्यालय सूचना पटल/वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

  
12.2.2019

सहायक कुलसचिव (गोपनीय)  
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ.ग.)



# अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

www.bilaspuruniversity.ac.in

## APPENDIX

### REMUNERATION FOR EXAMINATION WORK

1. The Scale of Remuneration of paper setter / examiners as follows viz: -					
(i)	For Ph.D., D.Sc. & D.Lit. examinations:			Approved Rate (in Rs.)	
	(a)	Reading a Thesis for Ph.D.		2500	
	(b)	Practical and Viva-Voce examination for Ph.D.		1500	
	(c)	Reading a Thesis for D.Sc. or D.Litt.		3500	
	(d)	Practical and Viva-Voce examination for D.Sc. or D.Litt.		1500	
(ii)	For M.Phil., Post Graduate and Post Graduate Diploma Examinations:				
	(a)	Setting a Question Paper	New pattern	With answer key	2000
				Without answer key	1800
			Old Pattern	1000	
	(b)	Valuation of answer book	New pattern	25 (Min. 200)	
			Old Pattern	15 (Min. 100)	
	(c)	1.	Reading the Thesis/Dissertation and Viva-Voce of a candidate for PG & PG Diploma Examination.	120	
		2.	Reading a project report/field work/field report of a candidate for PG & PG Diploma Examination.	120	
		3.	M. Phil. Dissertation/Project Report Valuation and Viva-Voce.	100+50	
	(d)	Viva-Voce/Practical Examination of each candidate for PG & PG Diploma Examination.		15 (Min. 500)	
(iii)	For Under Graduate Examinations:				
	(a)	Setting a Question Paper		900	
	(b)	Valuation of answer book		15 (Min. 100)	
(c)	Practical Examination of each Candidate to each Internal and External Examiner per Centre.		12 (Min. 500)		

(iv)	<b>All Diploma/Certificate Courses:</b>		
	(a)	Setting a Question Paper	600
	(b)	Valuation of each answer book	15 (Min. 100)
(c)	Conducting Practical Examination of each candidate to each Internal and External Examiner per Centre.	12 (Min. 400)	
(v)	<b>Miscellaneous:</b>		
	(a)	Remuneration to Head examiners per valuation day. This includes remuneration for drafting of instructions, issue of models etc. No separate fee to be paid for drafting of instructions.	400
	(b)	Drafting detailed memorandum of instructions for Co-examiners (Where no model answer is sent by head examiner and the answer books examined by Co-examiners are not re-examined by head examiner)	600
	(c)	For supplying more than two but not exceeding six copies of question papers in addition to the required number of two.	100
	(d)	For translation of paper from English to Hindi medium or other Indian Language and Vice-Versa.	200
<b>Note: -</b>			
(a)	If a paper is set by two examiners the remuneration shall be divided equally between them excepting in B.Ed.		
	If a paper for an examination consists of two sections, both of which are compulsory, the remuneration payable for examining each answer book in a section shall be half the remuneration prescribed for examining each answer book in the full paper.		
	1.	The answer books weighing two or more than two kilograms will be sent by the examiners to the university by railway and the railway freight charged thus incurred by the examiner in sending the packets will be paid by the university.	
		The actual postal expenses incurred by the examiners in sending the packets of answer book less than two kilogram and also the award list to the university shall be paid by the university.	

B

		3.	Amount payable to the local examiners for bringing or sending the answer-books and award lists to the university shall be	Rs. 100
		(d)	Remuneration for re-examination of answer book (for revaluation) to each examiner.	40 Rs. (Min. 100)
<b>2.</b>	<b>THE FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATIONS FOR THE WORK RELATING TO DECLARATION OF RESULTS AND ISSUE OF STATEMENT OF MARKS VIZ: -</b>			
	(i)	(a)	Tabulation of results (per hundred candidates)	100 (Min. 100)
		(b)	Collation of results (per hundred candidates)	80 (Min. 80)
		(c)	Checking /Scrutinizing (per hundred candidates)	40 (Min. 40)
	(ii)		For writing of statement of marks (each marksheet)	1
	(iii)		For Checking / Scrutinizing of statement of marks (each marksheet)	1
	(iv)		For writing of each Degree /Diploma / Certificate	5
	(v)		For Checking / Scrutinizing of Degree/Diploma/Certificate - each Checker/ scrutinizer.	2
<b>3.</b>	<b>Maximum remuneration that a single person shall be entitled to draw from the university in respect of one academic session for any or all of the work mentioned under paragraph 1 above shall be Rs.</b> (All excess amount over and above the said limit shall lapse to the university. Provided that where sufficient numbers of examiners are not available in any subject, the Vice-Chancellor may relax the maximum limit by Rs. 10000/- for reasons to be recorded in writing.			50000
<b>4.</b>	<b>Unless specially permitted, deduction shall be made from the remuneration bills on account of the following: -</b>			
	(i)		Delay in dispatch of foil/counter foils or marks to be the Registrar (for each day of delay.)	15
	(ii)		Delay in return of answer books (for each day of delay Rs.)	15
	(iii)		Delay in the dispatch of the report on the examination (for each day of delay Rs.)	15
	(iv)		Entry of marks against wrong Roll Number (per mistake Rs.)	15
	(v)		Wrong entry of marks (e.g. 35 instead of 25) (per mistake Rs.)	15
	(vi)		If marks in award list differ from those shown on the answer books. (per mistake Rs.)	20
	(vii)		Omission to enter marks in award list although answer books sent. (per mistake Rs.)	15
	(viii)		Omission to mark a question or part of question (per mistake Rs.)	15
	(ix)		Mistake in totaling of marks (per mistake Rs.)	15

<b>Note: -</b>		
(a)	If any examiner commits more than three mistakes under any of the categories mentioned in the foregoing paragraph or if any examiner commits mistake or mistakes by which the result of a candidate is affected, his work shall be deemed as unsatisfactory and the matter may be placed before the Executive Council for any action deemed proper.	15
(b)	Deductions from the bill of tabulators for each mistake made by the tabulator shall be	15
<b>5. The following shall be the rates of remuneration payable to persons engaged in work relating to university examination at Centre viz: -</b>		
<b>A. THEORY</b>		
(a)	<b>Senior Superintendent/Principal: Per Shift</b> (presence of the principal during the entire period of examination)	300 (Max. 500 per day)
(b)	<b>Superintendent: Per Shift</b>	200 (Max. 400 per day)
(c)	<b>Assistant Superintendent: Per Shift</b>	150 (Max. 300 per day)
(d)	<b>Invigilator: Per Shift</b>	120
(e)	<b>Class III and Class IV staff of the Centre/college/Dept. engaged in examination work at a Centre (per candidate)</b> For the total number of candidates actually admitted to the examination at the Centre to be distributed by the Centre Superintendent.	6 and 4 respectively
(f)	Lumsum grant payable (per candidate) to the examination center to cover expenses on all contingent items. (The Principal/Head of the concerned institution shall send a utilization certificate in this respect to the university.)	6 (Min. 1500 per Centre)
<b>B. PRACTICAL:</b>		
(a)	Laboratory staff engaged in connection with practical examinations- (per candidate for the total number of the candidate actually admitted to the examination at the Centre.)	6

*B*

<b>C. OTHERS:</b>			
(a)	Forwarding of examination form (Officer and his staff per application form forwarded.)	<b>30</b>	
(b)	For supplying all necessary materials for practical examination (in subjects where needed) Science and Home Science Namely vegetables, chemical, dissection, animals, plant, raw material etc., the principal of the college concerned will be paid contingent charges for per candidate actually appeared in the examination. For which Principal will have to issue an official receipt.	<b>3 (UG Exam) &amp; 4 (PG Exam)</b>	
<b>6.</b>	<b>In case of a work for which no remuneration has been prescribed in the foregoing paragraphs, the rate therefore shall be determined by the Vice-Chancellor.</b>		
<b>S. No</b>	<b>Nature of Confidential Work</b>	<b>Item ordinance 5-17 to which this work is considered equivalent</b>	
		<b>Revised rates of Remuneration</b>	
i.	To prepare the list of carry forward marks of candidates appearing for various examinations.	Writing of statement marks.	Per candidate
ii.	Corrections in chart (including corrections for declaration of withheld results)	Writing of statement marks.	Per candidate
iii.	To put the correct Roll Nos. on award for practical's	Collection of Results	Per candidate
iv.	To write the foils and counter foils for marks awarded in Central Valuation.	Collation of Result	Per candidate
v.	Posting of UFM and Revaluation cases & declaration of their results.	Tabulation	Per candidate
vi.	Scrutiny of Answer Books.	-	Per candidate

**Note: The above rates shall apply from theory/practical examination of session 2018-19.**